



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1941 (श0)

(सं0 पटना 1204) पटना, शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2019

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

18 अक्टूबर 2019

सं० 7/नि. (विधि-08) के.स.स.-13/2005-10106—चूँकि इस कार्यालय आदेश ज्ञापांक 7568 दिनांक 06.09.2016 से परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मधेपुरा के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ श्री आनन्द कुमार चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया है।

सम्प्रति संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा ने अपने पत्रांक 291 दिनांक 16.09.2019 से श्री आनन्द कुमार चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उनकी जगह नवपदस्थ जिला सहकारिता पदाधिकारी, श्री अरविन्द कुमार पासवान को सहायक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

अतएव मैं, रचना पाटिल, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा-44(2) एवं तदनुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) में निहित प्रावधान के आलोक में तुरंत के प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

आदेश से,
रचना पाटिल
निबंधक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1204-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>